

7. स्थायी खाता संख्या

Permanent Account Number (PAN)

10 अंकों के पैन कार्ड से आशय

स्थायी खाता संख्या आयकर विभाग द्वारा जारी एक अल्फान्युमेरिक संख्या है। जिससे आयकर दाताओं की पहचान आयकर विभाग द्वारा किया जाता है। इसके आधार पर सभी श्रेणी के करदाताओं को अलग-अलग खण्ड का अल्फान्युमेरिक संख्या जाड़ी किया जाता है। सभी श्रेणियों के लिए आयकर का प्रावधान दर अलग-अलग प्रकार का होता है।

यह पैन कार्ड व्यक्तियों, कम्पनियों, साझेदारी फर्मों, हिन्दू अविभाजित परिवार जैसे श्रेणी के लिए अलग-अलग श्रेणी तय किए गए हैं। इस कार्ड का मुख्य उद्देश्य है भारत में हर एक का सालाना लेन-देन को पहचान करना और उस रिपोर्ट के आधार पर आयकर का उचित निर्धारण करना।

पैन कार्ड की आवश्यकता (इसके मुख्य फायदे और उपयोग)

1. आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करना: अपना [आई टी आर फाइल](#) करने के लिए पैन कार्ड जरूरी है।
2. TDS और TCS के लिए: [TDS](#) (स्रोत पर कर कटौती) और ([TCS](#) (स्रोत पर कर संग्रह) के लिए पैन कार्ड जरूरी है।
3. GSTIN अप्लाई के लिए: आप अगर कोई सामान ऑनलाइन सेल करने जाएंगे तो [जी एस टी नंबर](#) के बिना नहीं होगा, जीएसटी नंबर अप्लाई करने के लिए आपको यह कार्ड चाहिए।

4. नया बैंक अकाउंट खोलना: अपने नाम से बैंक में नया अकाउंट खोलने या पुराना अकाउंट में केवाईसी)KYC अपने ग्राहक को जानेंके लिए के लिए पैन कार्ड जरूरी है। (
 5. 50,000 रुपए से अधिक बैंक के लेनदेन: कोई भी बैंक में 50,000 रुपए या उससे अधिक जमा करने या निकालने के लिए पैन कार्ड जरूरी है।
 6. विदेशी मुद्रा का लेनदेन: 50,000 रुपए से ज्यादा के विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए भी आपका पैन कार्ड का जरूरत होगा।
 7. अचल संपत्ति की खरीद या बिक्री: नए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या अपने प्रॉपर्टी बेचने के लिए पैन कार्ड जरूरी है।
 8. वाहन खरीदने या बेचने के लिए: कोई भी नया गाड़ी या बाइक खरीदने के लिए या अपने पुराने बहन को बेचने के लिए पैन कार्ड जरूरी है।
 9. निवेश करना: शेयर मार्केट पर शेयर खरीदने, म्यूचुअल फंड, या बॉन्ड और किसी प्रकार के इन्वेस्ट करने के लिए पैन कार्ड जरूरी है।
 10. क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आवेदन: किसी भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अप्लाई करने के लिए पैन कार्ड जरूरी है।
 11. लोन के लिए: किसी भी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, पर्सनल लोन इन सभी के लिए यह कार्ड जरूरी है।
 12. Credit Score देखने के लिए: आपका क्रेडिट स्कोर देखने के लिए भी आपको पैन कार्ड की जरूरत होगी, और क्रेडिट स्कोर देखे बिना कोई बैंक आपको लोन भी नहीं देगा।
- कुल मिलाकर आप पैन कार्ड के बिना ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते जहां पर पैसा का मामला हो, और सरकार ने सभी का पैन और आधार को एक साथ लिंक करना अनिवार्य कर दिया है, ताकि सभी के लेन देन को ट्रैक कर सके और टैक्स चोरी में रोक लगा सके।
- 10 अंकों के PAN नंबर का आशय (हर अंक का रहस्य)**

1.पहले का 3 अक्षर: ये अल्फ़ाबेटिक के रूप में होते हैं और यह **A** से **Z** के अंदर कोई भी 3 अक्षर हो सकता है जैसे **ABC, CDM, PXY** ऐसे के कोई भी तीन अक्षर हो सकते हैं।

2. चौथा अक्षर: यह पैन कार्ड धारक की अपनी पहचान बताते हैं जैसे कि वह क्या कोई कंपनी का है, कोई व्यक्ति है, ऐसे 10 वर्ड हैं जो पैन कार्ड में अलग अलग लगाया जाता है वह आप नीचे से जाने

1. **P: Individual** (व्यक्तिगत)
2. **C: Company** (कंपनी)
3. **H: HUF** (हिंदू अविभाजित परिवार)
4. **F: Firm** (फर्म)
5. **A: Association of Persons (AOP)**
6. **T: Trust** (ट्रस्ट)
7. **B: Body of Individuals (BOI)**
8. **L: Local Authority** (स्थानीय प्राधिकरण)
9. **J: Artificial Juridical Person**
10. **G: Government** (सरकारी)

3.पांचवां अक्षर: यह आपके उपनाम जिसे आपका टाइटल **Surname** कहा जाता है उसका पहला अक्षर लगाया जाता है, उपनाम का पहला अक्षर व्यक्तिगत **PAN** के लिए और अगर कोई कंपनी है तो उस कंपनी के नाम का पहला अक्षर लगाया जाता है।

4.अगले 4 अंक: ये सीरियल नंबर होते हैं और कोई भी 4 नंबर हो सकते हैं 0 से 9 के अंदर, जैसे **1234, 2601, 4956** ऐसे कोई भी चार अंक हो सकते हैं।

5.अंतिम अक्षर: यह एक चेक डिजिट होता है जैसे **A** से **Z** के अंदर कोई एक अक्षर, इसका इस्तेमाल गलतियों का पता लगाने के लिए किया जाता है।

यह जो **10** अंक का जिस आइडिया से पैन कार्ड नंबर बनता है आप सोचे कि सारी दुनिया के लोगों का भी एक साथ पैन कार्ड बना दिया जाए तो सबका नंबर अलग अलग होगा।

पैन कार्ड के बारे में कुछ जरूरी बातें

बिना पैन कार्ड के आपको टैक्स भी ज्यादा देना पड़ता है, और भी बहुत सारे कामों में आता है इसीलिए आज पैन कार्ड हमारे भारत में एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट के रूप में देखा जाता है।

पैन कार्ड बनाने का उम्र **18** साल होना चाहिए, आप **18** साल के पहले भी बना सकते हैं अपने माता पिता के डॉक्यूमेंट के मदद से लेकिन उस पैन कार्ड में आपका फोटो नहीं रहेगा, **18** साल बाद जवाब दोबारा पैन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें आपका फोटो के साथ आएगा।

आज सरकार सभी के पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करना जरूरी कर दिया है ताकि एक आदमी दो दो पैन कार्ड न बना सके, और दो पैन कार्ड बनाने से आपको फाइन और जेल भी हो सकते हैं।

पैन कार्ड में आपका नाम का एक अक्षर या डेट ऑफ बर्थ में कुछ अगर आधार कार्ड से मैच नहीं करेगा तो यह कार्ड आपक जहां पर भी जमा करेंगे रिजेक्ट हो जाएगा, इसीलिए पैन कार्ड पर या आधार कार्ड दोनों में से नाम और जन्मतिथि किस में गलत है उसको ठीक करें।

मैंने एक बार अपना **EPF** अकाउंट में अपने पैन कार्ड को अपडेट करने गया तो वहां पर गलत दिखा रहा था क्योंकि मेरा पैन कार्ड का एक अक्षर आधार कार्ड के साथ मैच नहीं हो रहा था, बाद में मैंने अपना पैन कार्ड को फिर से रेडी किया और बाद में वहां पर सबमिट हुआ।

इसलिए अभी भी आपका कुछ गलती है तो आप सुधार ले नहीं तो बाद में कभी आपका जॉब लग जाएगा या फिर अचानक लोन लेना लेना पड़ जाए तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, जब तक आप अपना कार्ड की सही नहीं करेंगे तब तक आपको कोई लोन भी नहीं देगा।

लोन से और एक बात याद आया कि आप जो भी लोन लेते हैं या **EMI** करते हैं छोटा हो या बड़ा उसे समय पर डेट के अंदर चुकाए, अगर आप ऐसा नहीं करते तो यह आपके पैन कार्ड के हिस्ट्री में जमा रहता है, इससे आपका क्रेडिट स्कोर कम होता है, जितना सिबिल स्कोर कम होगा कोई भी लोन देने वाला आप पर भरोसा नहीं करेगा।

निष्कर्ष: पैन कार्ड, आपकी वित्तीय पहचान है

कुल मिलाकर बात यह है कि **PAN Card** केवल हमारा एक पहचान पत्र नहीं है, बल्कि यह हमारा सालाना गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और सरकार के लिए हमारे वित्तीय गतिविधियों को ट्रैक करने का एक महत्वपूर्ण जरिया है, इसीलिए आप इस कार्ड की अहमियत को समझे और इस कार्ड सुरक्षित रखें और कार्ड में कुछ भी गलती हो तो इसे सुधारें।
